

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक 17 जुलाई, 2018

विषय:- खेलकूद विभाग की खेल से सम्बन्धित जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों एवं शिकायतों के निस्तारण हेतु खेलकूद विभाग का टोल-फ्री नम्बर प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि खेलकूद विभाग की खेल से सम्बन्धित जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों एवं शिकायतों के निस्तारण हेतु खेलकूद विभाग का टोल-फ्री नम्बर प्रकाशित कराये जाने के साथ-साथ प्रत्येक दिवस इसका निस्तारण करने हेतु श्री सतीश कुमार सार्की, सहायक निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को शासन द्वारा सम्यक् विचारोंपरान्त नामित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्य हेतु यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि टोल-फ्री नम्बर अध्यावधिक तथा प्रभावी हैं। कृपया अपने स्तर से प्रकरण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 522/VII/2018-04(खेल)2004, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1-निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 2-निजी सचिव, सचिव/अपर सचिव, खेलकूद विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव/अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 3-संबंधित अधिकारीगण।
- 4-एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
- 5-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।